

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने एडवांस ब्रैम्पटन फंड के द्वारा चैरिटीज और गैर-लाभ संगठनों के लिए ग्रांट्स की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (6 अप्रैल, 2021) – 2021 के एडवांस ब्रैम्पटन फंड (ए.बी.एफ.) (Advance Brampton Fund) (ABF) के हिस्से के तौर पर, अब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन के 42 गैर-लाभ और चैरिटेबल संगठनों को ग्रांट बांट रही है।

ग्रांट प्राप्त करने वालों की सूची, [सिटी की वेबसाइट \(City's website\)](#) पर देखी जा सकती है।

काउंसिल ने अक्टूबर 2020 में तीन स्ट्रीम्स – एमर्जिंग, डिवेलपिंग और एम्प्लिफाइंग में प्रोजेक्टों के लिए ए.बी.एफ. (ABF) हेतु प्रोग्राम के फ्रेमवर्क को मंजूरी दी थी। डिवेलपिंग और एम्प्लिफाइंग प्रोजेक्ट स्ट्रीम्स के लिए अंतिम तिथि, 3 फरवरी, 2021 थी।

इस वर्ष नई, एमर्जिंग प्रोजेक्ट्स (Emerging Projects) स्ट्रीम है, जो ब्रैम्पटन में नए और उभरते प्रोजेक्ट्स की मदद करती है और तिमाही आधार पर आवेदन स्वीकार करती है। अब आवेदन-पत्रों के लिए दूसरा आमंत्रण दिया जा रहा है। एमर्जिंग प्रोजेक्ट्स स्ट्रीम, ब्रैम्पटन की चैरिटीज और गैर-लाभ संगठनों को 5,000 तक की मेल खाती फंडिंग प्रदान करती है। इस ग्रांट के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि, 30 अप्रैल, 2021 है। प्रोग्राम की गाइडलाइंस के लिए, www.brampton.ca/ABF पर जाएं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटीज (Term of Council Priorities) में से एक, *स्वस्थ और सुरक्षित शहर (Healthy and Safe City)* में योगदान दे रही है। जैसे कि ए.बी.एफ. प्रोग्राम में, कम्युनिटी की सुरक्षा और तंदरुस्ती को एक उभरती जरूरत के तौर पर पहचाना गया था, इसलिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने उन संगठनों को फंड दिया है, जो कम्युनिटी में, कम्युनिटी की सुरक्षा और तंदरुस्ती संबंधी प्रोजेक्ट्स की हिमायत करते हैं।

कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए ए.बी.एफ. की *एम्प्लिफाइंग* स्ट्रीम के द्वारा प्रदान की गई 2021 की ग्रांट्स में से एक, बिग ब्रदर्स बिग सिस्टर्स ऑफ पील (Big Brothers Big Sisters of Peel) हेतु इसके मेंटरिंग प्रोग्रामों के लिए थी। मेंटरिंग प्रोग्राम, सकारात्मक युवा संबंधी विकास, कम्युनिटी की भागीदारी, मनोरंजन संबंधी अवसरों और ब्रैम्पटन के युवाओं के साथ लीडरशिप विकास को विकसित करते हैं।

संगठन को चार ब्रैम्पटन ग्रुप मेंटरिंग प्रोग्रामों को फंड देने के लिए 25,000 मिले थे, ये प्रोग्राम हैं; दो किशोर मेंटरिंग ग्रुप प्रोग्राम; एक शेरीडन कॉलेज (Sheridan College) में 'बिग्स ऑन कैंपस' ग्रुप मेंटरिंग प्रोग्राम ('Bigs on Campus' Group Mentoring Program); और, ब्लैक यूथ मेंटरिंग प्रोग्राम (Black Youth Mentoring Program) की शुरुआत, यह भी शेरीडन कॉलेज में होगा।

हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, उस बेजोड़ और बहुमूल्य भूमिका को पहचानती है, जो चैरिटीज और गैर-लाभ संगठन, ऐसे प्रोग्राम पेश करने में निभा सकते हैं, जो कम्युनिटी की जरूरतें पूरी करते हैं, सिटी की सेवाओं की पूर्ति करते हैं और 2018-2022 की टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटीज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। हमें, एडवांस ब्रैम्पटन फंड के द्वारा ब्रैम्पटन में इस निवेश को जारी रखने पर गर्व है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“त्यौहारों व कार्यक्रमों से लेकर, हमारे युवाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य और तंदरुस्ती वाले प्रोग्राम प्रदान करने वाले लोकल गैर-लाभ संगठनों की हिमायत करने तक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ऐसी पहलकदमियों की हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारी सिटी का निर्माण करती हैं और हमें हमारे 2040 के विजन की ओर आगे बढ़ाती हैं। हम हमारे ए.बी.एफ. प्राप्त करने वालों के और उनके द्वारा हमारी कम्युनिटी की मदद के लिए किए जाने वाले अर्थपूर्ण कार्य के लिए शुक्रगुजार हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“एमर्जिंग स्ट्रीम प्रोजेक्टों में तिमाही तौर पर अप्लाई करने के अवसर के साथ, मैं सभी चैरिटेबल और गैर-लाभ संगठनों को सलाह देता हूँ कि वे इस माह, अप्रैल में अप्लाई करें। आपके संगठन ऐसे प्रोग्राम प्रदान करते हैं, जो ब्रैम्पटन की कम्युनिटी का निर्माण करते हैं और निवासियों कि ज़िंदगी की क्वालिटी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“एडवांस ब्रैम्पटन फंड, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को ऐसे प्रोग्राम प्रदान करने के लिए कम्युनिटी में, चैरिटेबल और गैर-लाभ संगठनों के साथ साझेदारी करने में सक्षम बनाता है, जो निवासियों को लाभ पहुंचाते हैं और टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटीज के मुताबिक हैं और ब्रैम्पटन 2040 विजन प्लान की हिमायत करते हैं। हमारी टीम, इन ग्रुप्स के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो ये हमारी कम्युनिटी में बहुत-से लोगों की ज़िंदगियों में वृद्धि करने के लिए करते हैं।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca